

November 12, 2022

DCS-CRD BSE Limited First Floor, New Trade Wing Rotunda Building Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street Fort, Mumbai 400 023 Stock Code: 500032	National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, 5th Floor Plot no. C/1, G Block Bandra Kurla Complex Bandra (East) Mumbai 400051 Stock Code: BAJAJHIND
---	--

Dear Sirs,


Sub: Newspaper Publication of Extracts of Un-audited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter ended September 30, 2022

Pursuant to the Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time, please find enclosed herewith copies of newspaper advertisement published in Navbharat Times (Hindi Daily) and The Economic Times (English Daily) on November 12, 2022 in respect of the Extracts of Un-audited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter ended September 30, 2022.

The same may please be taken on record and suitably disseminated to all concerned.

Thanking you,

Yours faithfully,
For **Bajaj Hindusthan Sugar Limited**



Kausik Adhikari
Company Secretary &
Compliance Officer
(Membership No. ACS 18556)

Encl.: As above

bajaj SUGAR

bajaj GROUP
THINK TOMORROW

Bajaj Hindusthan Sugar Limited

CIN: L15420UP1931PLC065243

Regd. Office: Golagokarannath, Lakhimpur-Kheri, District Kheri, Uttar Pradesh- 262802

Tel.: +91-5876-233754/5/7/8, 233403, Fax: +91-5876-233401, Website: www.bajajhindusthan.com

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND SIX MONTHS ENDED SEPTEMBER 30, 2022

(₹ crore)

Sr. No.	Particulars	Standalone			Consolidated		
		3 Months ended	Corresponding	Previous year ended	3 Months ended	Corresponding	Previous year ended
		30.09.2022	30.09.2021	31.03.2022	30.09.2022	30.09.2021	31.03.2022
	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Audited	
1	Total Income	1,325.58	1,348.86	5,590.22	1,329.99	1,347.35	5,607.56
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax and exceptional items)	(160.06)	(111.88)	(222.36)	(162.29)	(113.01)	(265.33)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional items)	(160.06)	(111.88)	(222.36)	(162.29)	(113.01)	(271.52)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional items)	(160.06)	(111.88)	(218.25)	(162.37)	(113.01)	(267.54)
5	Total comprehensive income	(160.06)	(111.88)	(190.00)	(162.55)	(113.27)	(239.61)
6	Equity Share Capital	127.74	127.74	127.74	127.74	127.74	127.74
7	Other equity	NA	NA	2,752.94	NA	NA	2,134.66
8	Earnings per Share (of Re 1/- each)						
	Basic (Rs per share)	(1.29)	(0.92)	(1.82)	(1.30)	(0.93)	(2.23)
	Diluted (Rs per share)	(1.29)	(0.92)	(1.82)	(1.30)	(0.93)	(2.23)

Notes:

- The Optionally Convertible Debentures (OCDs) aggregating to Rs. 3483.25 Crore issued by the Company to the Joint Lenders' Forum (JLF) of the Company in accordance with the Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets (S4A Scheme) towards the conversion of a part of the unsustainable debt, provides the holder an option to exercise the right to convert the outstanding OCDs into the equity shares of the Company at a price in accordance with applicable laws (including the ICDR Regulations). There is a contractual obligation related to the premium payable on OCD at the time of redemption of OCD stipulates that the YTM (Yield to maturity) being the difference between weighted average interest and coupon rate interest is payable as redemption premium at the time of redemption of OCD which are redeemable in 13 equal instalments commencing from the Financial Year 2024-25. The Company considers such premium to be paid is contingent on the occurrence of the event of redemption of OCDs. The YTM of Rs. 1784.12 Crore from the date of allotment of OCDs till March 31, 2022 is treated as a contingent liability and would be accounted for as finance cost at the time of redemption of respective OCDs. The Company has also not taken provision towards coupon rate interest on such OCD and not consider YTM after 31.03.2022. In the opinion of the management, said coupon rate interest and YTM will be treated as per financial restructuring plan submitted by the Company to the lenders. Auditors have drawn qualification for non-provision of YTM premium up to Sept 30, 2022 as well as coupon interest on OCD for the quarter and Six Months ended on Sept 30, 2022.
- For the quarter and six Months ended Sept 30, 2022, and in earlier years, the Company had incurred losses resulting in the reduction of net worth to such extent. The losses were mainly attributable to high raw material (i.e., sugarcane prices) and other inputs costs, relatively lower realization of sugar, higher depreciation and finance expenses. Market forces determine sugar prices based on the demand-supply situation and other market dynamics, which are external factors, and the sugar prices have been relatively lower over the years due to higher production of sugar in the country.
The Company is continuously striving to improve its operational efficiency and operating parameters by way of improvement in sugar recovery, increase in production of alcohol/ ethanol by using B heavy molasses, reduction of overheads, finance, other costs and monetization of certain non-core assets etc.
The debt restructuring as per RBI's S4A Scheme has somewhat improved the Company's liquidity position. However, keeping in view the status of outstanding cane dues and funds for servicing debt obligations, the Company is further discussing with the lenders a debt resolution plan to have a lasting solution to improve its liquidity. The resolution plan envisages reduction of its overall debt, realignment of its capital structure, payment of cane dues of farmers, increasing cane availability and supply etc. The company is also exploring/ evaluating various options for corporate restructuring to streamline the business and enhance the Company's value.
The Government has also taken various measures to improve the financial health of the sugar industry in recent past, like MIEQ, buffer stock subsidy, fixing MSP for sugar; increased ethanol prices etc. Presently, the Government has put a great thrust on promoting ethanol production and has planned to increase the ethanol blending in petrol up to 20% by 2025. Ethanol will turn around the economic dynamics of the sugar industry positively. All these measures are expected to turn around the operations of the sugar industry on a sustainable basis. The Company also expects to receive accrued benefits under the Sugar Industries Promotion policy 2004 for which it is entitled, but presently, the matter is sub-judice.
The management expects to generate positive cash flow from operation in view of the above. Accordingly, the financial results are presented on a going concern basis, which contemplates the realization of assets and settlement of liabilities in the ordinary course of business. Also, the Company continues to classify bank borrowings into non-current and current as per last approved repayment plan. This matter has been referred by auditors in their limited review report.
- The above is an extract of the detailed format of quarterly / yearly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation 2015. The full format of the quarterly / Six monthly Financial Results are available on the Stock Exchange website www.bseindia.com, www.nseindia.com and Company's website www.bajajhindusthan.com.

For Bajaj Hindusthan Sugar Limited

Sd/-

D.K. Shukla

Director

DIN 00025409

Place : Lucknow

Date : November 11, 2022

bajaj SUGAR

बजाज हिन्दुस्थान शुगर लिमिटेड

bajaj GROUP
THINK TOMORROW

सीआईएन : एल १५४२०युपी१९३१पीएलसी०६५२४३

पंजीकृत कार्यालय : गोलागोकरणाथ, लखीमपुर - खीरी, जिला - खीरी, उत्तर प्रदेश २६२८०२

दूरभाषः+९१-५८७६-२३३७५४/५/७/८, २३३४०३, फॅक्सः+९१-५८७६-२३३४०१, वेबसाइट: www.bajajhindusthan.com

३० सितंबर २०२२ को समाप्त तिमाही और छह माही के कालावधी का अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण (₹ करोड़ों में)

क्र. सं.	विवरण	एकल			समेकित		
		३०.०९.२०२२	३०.०९.२०२१	३१.०३.२०२२	३०.०९.२०२२	३०.०९.२०२१	३१.०३.२०२२
		को समाप्त ३ माह	को समाप्त ३ माह	को समाप्त पीछले वर्ष	को समाप्त ३ माह	को समाप्त ३ माह	को समाप्त पीछले वर्ष
१.	कुल आय	१,३२५.५८	१,३४८.८६	५,५९०.२२	१,३२९.९९	१,३४७.३५	५,६०७.५६
२.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर तथा असाधारण मदों (एक्सेप्टानल आइटम)से पूर्व)	(१६०.०६)	(१११.८८)	(२२२.३६)	(१६२.२९)	(११३.०१)	(२६५.३३)
३.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) -कर पूर्व (असाधारण मदों (एक्सेप्टानल आइटम) के उपरान्त)	(१६०.०६)	(१११.८८)	(२२२.३६)	(१६२.२९)	(११३.०१)	(२७१.५२)
४.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि)-कर उपरान्त (असाधारण मदों (एक्सेप्टानल आइटम) के उपरान्त)	(१६०.०६)	(१११.८८)	(२१८.२५)	(१६२.३७)	(११३.०१)	(२६७.५४)
५.	अवधि के लिए कुल बृहत आय	(१६०.०६)	(१११.८८)	(१९०.००)	(१६२.५५)	(११३.२७)	(२३९.६९)
६.	समता अंश पूंजी	१२७.७४	१२७.७४	१२७.७४	१२७.७४	१२७.७४	१२७.७४
७.	अन्य अंश	NA	NA	२,७५२.९४	NA	NA	२,१३४.६६
८.	प्रति अंश (शेयर) अर्जन (₹ १/- प्रत्येक का) मूल (बेसिक) (प्रती शेयर ₹) अवमिश्रित (डाइल्यूटेड)(प्रती शेयर ₹)	(१.२९)	(०.९२)	(१.८२)	(१.३०)	(०.९३)	(२.२३)

टिप्पणी :

- अधारीय ऋण के एक भाग के परिवर्तन की ओर दबावग्रस्त आस्तियों का धारणीय सुनियोजन (S4A योजना) के अनुसार कंपनी के संयुक्त ऋणदाता मंच (JLF) को कंपनी द्वारा जारी किए गए कुल ₹. ३४८३.२५ करोड़ के विकल्पतः परिवर्तनीय डिबेंचर (OCDs), धारक को लागू कानूनों (ICDR विनियमों सहित) के अनुसार बकाया OCDs को एक मूल्य पर कंपनी के इक्विटी शेयरों में बदलने के अधिकार का प्रयोग करने का विकल्प देते हैं। यहां OCD के मोचन के समय OCD पर संदेय प्रीमियम से संबंधित एक संविदा-दायित्व है जो यह अनुबद्ध करता है कि भारत अंशतः ब्याज और कूपन दर ब्याज के बीच का अंतर YTM (परिपक्वता आय) होने के नाते यह OCD के मोचन के समय मोचन प्रीमियम के रूप में संदेय है जो कि वित्त वर्ष २०२४-२५ से प्रारंभ होने वाली १३ समाप्त किरतों में प्रतिवेद्य है। कंपनी मानती है कि ऐसा संदेय प्रीमियम OCD के मोचन की स्थिति में प्रतिकारी है, ३१ मार्च, २०२२ तक OCDs के आवंटन की तारीख से ₹. १७८४.१२ करोड़ की YTM को प्रतिकारी देयता माना जाता है और संबंधित OCDs के मोचन के समय वित्त लागत के रूप में इसका लेखा-जोखा किया जाएगा। कंपनी ने ऐसे OCD पर कूपन दर ब्याज की ओर प्रावधान भी नहीं किया है और ३१.०३.२०२२ के बाद YTM पर विचार नहीं किया है। प्रबंधक-वर्ग की राय में, उक्त कूपन दर ब्याज और YTM पर कंपनी द्वारा ऋणदाताओं को प्रस्तुत वित्तीय पुनर्गठन योजना के अनुसार संव्यवहार किया जाएगा। लेखापरीक्षकों ने ३० सितंबर, २०२२ तक YTM प्रीमियम का प्रावधान नहीं किए जाने के साथ-साथ ३० सितंबर, २०२२ को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए OCD पर कूपन ब्याज के लिए अर्हता निर्धारित की है।
- ३० सितंबर, २०२२ को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए और पूर्ववर्ती वर्षों में, कंपनी को घाटा हुआ था, जिसके फलस्वरूप निवल मूल्य में इस सीमा तक कमी आई थी। ये हानियां मुख्यतः महंगा कच्चा माल (अर्थात्, गन्ने की कीमतें) और अन्य साधन-सामग्रियों की लागतों, चीनी की अपेक्षाकृत कम प्राप्ति, उच्च मूल्यहास और वित्त व्यय के कारण हुई थीं। बाजार शक्तियां मांग-आपूर्ति की स्थिति और अन्य बाजार की गतिशीलता के आधार पर चीनी की कीमतों का निर्धारण करती हैं, जो कि बाहरी कारक हैं, और देश में चीनी के उच्च उत्पादन के कारण पिछले कुछ वर्षों में चीनी की कीमतें अपेक्षाकृत कम रही हैं।
कंपनी चीनी की प्राप्ति में सुधार, बी भारी शीशों का उपयोग करके अल्कोहल/इथेनॉल के उत्पादन में वृद्धि, शिरोपरि व्ययों, वित्त, अन्य लागतों के न्यूनीकरण और कतिपय अग्रमूख परिसंपत्तियों के मौद्रिकरण, आदि के द्वारा अपनी परिचालनिक कार्यकुशलता और परिचालन मानकों में सुधार लाने का प्रयास कर रही है।
RBI की S4A योजना के अनुसार ऋण पुनर्गठन से कंपनी की नकदी की स्थिति में कुछ सुधार आया है। बहरहाल, गन्ने की बकाया देयताशियों और ऋण दायित्वों की अदायगी के लिए निधियों की स्थिति को देखते हुए, कंपनी अपनी नकदी में सुधार लाने लिए एक स्थायी समाधान हेतु ऋणदाताओं के साथ एक ऋण समाधान योजना पर चर्चा कर रही है। समाधान योजना में इसके समग्र ऋण के न्यूनीकरण, इसकी पूंजी संरचना के पुनर्गठन, किसानों की गन्ना बकाया देयताशियों के भुगतान, गन्ने की उपलब्धता और आपूर्ति में वृद्धि आदि की संकल्पना की गई है। कंपनी व्यवसाय को सुचारू बनाने और कंपनी के मूल्य का संवर्धन करने हेतु कॉर्पोरेट पुनर्गठन के लिए विभिन्न विकल्पों की खोज/मूल्यांकन भी कर रही है।
हाल ही में सरकार ने भी चीनी उद्योग को वित्तीय सुदृढ़ता को बेहतर बनाने के लिए कई उपाय किए हैं, जैसे MIEQ, बकर स्टॉक सखिडी, चीनी के लिए MSP तय करना, इथेनॉल की कीमतों में वृद्धि आदि। इस समय सरकार ने इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने पर बहुत बल दिया है और २०२५ तक पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण को २०% तक बढ़ाने की योजना बनाई है। इथेनॉल उद्योग की आर्थिक गतिशीलता को धनात्मक रूप से बदल देगा। इन सभी उपायों से चीनी उद्योग के परिचालनों का दीर्घकालिक आधार पर कायापलट होने की प्रत्याशा है। कंपनी को चीनी उद्योग प्रोत्साहन नीति २००४ के अंतर्गत उपचित लाभ प्राप्त होने की भी प्रत्याशा है, जिसके लिए वह हकदार है, लेकिन फिलहाल यह मामला अदालत में विचाराधीन है।
उपरोक्त के दृष्टिगत, प्रबंधक-वर्ग को परिचालन से धनात्मक रोकड प्रवाह उत्पन्न होने की प्रत्याशा है। तदनुसार, एक लाभकारी कारवार वाली संस्था के आधार पर वित्तीय परिणाम प्रस्तुत किए जाते हैं, जो व्यवसाय के सामान्य कामकाज में परिसंपत्तियों की वसूली और देयताओं के निपटान पर विचार करते हैं। साथ ही, कंपनी ने पिछली स्वीकृत पुनर्भुगतान योजना के अनुसार बैंक ऋणों को गैर-चालू और चालू में वर्गीकृत करना जारी रखा हुआ है। लेखापरीक्षकों ने अपनी सीमित समीक्षा रिपोर्ट में इस मामले का उल्लेख किया है।
- उपरोक्त सेवा (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम २०१५ के विनियम ३३ के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों में फाइल किए गए दायर तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक उद्धरण है। तिमाही/छमाही वित्तीय परिणामों का पूरा प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com, www.nseindia.com और कंपनी की वेबसाइट www.bajajhindusthan.com पर उपलब्ध है।

स्थान : लखनऊ

दिनांक : नवंबर ११, २०२२

कृते बजाज हिन्दुस्थान शुगर लिमिटेड

हस्ता/ -

डी. के. शुक्ला

निदेशक

(डिआयएन ०००२५४०९)